

बेटा:- पापा, हर सत्र का Basic Principle और Obligative
[200] [200A]

Engagement करना होता है। पापा Q ?
[210] [210-220]

बेटा की Document से Found करके Q की Deficiency
को बता सकता है। [230] [240] [250-255] [260-265] [265]

आज, Joint होकर Planning करना ताकि Risk और Materiality
को Response दे सके। [299] [300] [315] [320]

340 से कुछ बतवा देंगे कि कोई Evidence Additional
[Source sign-402] [Mistake-450] [500] [505]

नहीं है उनके पास/जहाँ कौन सा बाहर Open
करने वाला है। [Evidence=505] [Closing=510]

पापा:- बेटा, ACP Sample से Estimate करके Relate कर
[ACP-520] [530] [540] [Related Points=550]

सकता है। और तो और पहले बताना करके।
[Subsequent-560] [Closing-570]

Written Representation ले सकता है। [580]

बेटा:- पापा, Auditor या Internal Auditor या Expert
को बताना। उससे Report लेकर Conclusion
[600] [610] [620] [700] [710]

कर ले। Risk
[720]